

प्रेस नोट

दिनांक 07.10.2020

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, फड़ से रू0 11,500/ नगद, 52 अदद ताश के पत्ते व तलाशी से रू0 2800/ नगद बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी व क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में तथा राजेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जगदीशपुर के निकट नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.10.2020 को उ0नि0 महेन्द्र सरोज थाना जगदीशपुर मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर फैजाबाद रोड रेलवे क्रसिंग आम के बाग से जुआ खेलते हुए 03 व्यक्तियों 1. अनस खां उर्फ डाक्टर पुत्र रफीक अहमद, 2. सुनील कुमार पुत्र सीताराम, 3. बालकिशुन पुत्र संतराम को गिरफ्तार किया गया । मौके का फायदा उठाकर 02 व्यक्ति फरार हो गये । मौके से 52 अदद ताश के पत्ते, फड़ से रू0 11500/ नगद तथा तलाशी से रू0 2.800/ नगद बरामद हुआ । थाना जगदीशपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अनस खां उर्फ डाक्टर पुत्र रफीक अहमद नि0 धनलक्ष्मी बैंक के पीछे कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. सुनील कुमार पुत्र सीताराम नि0 बकसावा थाना कोठी जनपद बाराबंकी ।
3. बालकिशुन पुत्र संतराम नि0 बकसावा थाना कोठी जनपद बाराबंकी ।

बरामदगी का विवरण-

1. फड़ से रू0 11,500/ नगद ।
2. तलाशी से रू0 2,800/ नगद ।
3. 52 अदद ताश के पत्ते ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 352/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 महेन्द्र सरोज थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. हे0का0 राममूर्ति प्रजापति थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
3. का0 रोहित सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।